



आपको धमकियों, दबाव, उत्पीड़न
या हिंसा के बिना अपना काम करने
का अधिकार है।

यदि आप हिंसा का सामना कर रहे हैं, तो
जानकारी और समर्थन के लिए कॉल करें।



राष्ट्रीय
महिला हेल्पलाइन
1091

पुलिस
100

